



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 18 जून 2022

थाना नरौरा

मन्दिर में हुई चोरी की घटना का खुलासा, 03 अभियुक्त चोरी किए गये शत-प्रतिशत सामान सहित गिरफ्तार

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 18.06.2022 को थाना नरौरा पुलिस को अभिसूचना प्राप्त हुई कि मन्दिर से चोरी हुए सामान को कुछ लोग बेचने के उद्देश्य से नरौरा राजघाट मार्ग से नोदेई की मढैय्या की तरफ जाने वाले रास्ते पर खड़े हैं। इस सूचना पर थाना नरौरा पुलिस द्वारा नोदेई की मढैय्या वाले मोड़ पहुंचकर तीन अभियुक्तों को एक मोटर साइकिल व मन्दिर से चोरी किए गए शत-प्रतिशत सामान/पात्र आदि सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों द्वारा दिनांक 31-05-2022 की रात्रि में शिव मंदिर नखर बंदा-3 आश्रम नरौरा से मंदिर की दीवार तोड़कर कलश, बाल्टी, तांबे के पात्र व शिव मंदिर की चोटी का कलश आदि चोरी करने की घटना कारित की गई थी जिसके संबंध में थाना नरौरा पर मुअसं-128/22 धारा 380/457 भादवि पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम पते-

1. राजू पुत्र नेक्से निवासी ग्राम उदयगढ़ी की मढैय्या थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर।
2. राजू पुत्र रमेश निवासी उपरोक्त।
3. नन्हू पुत्र देव निवासी उपरोक्त।

बरामदगी-

1. एक मोटर साइकिल प्लेटिना UP 13AM 4843
2. **चोरी किया गया शत-प्रतिशत सामान-** 1 कलश ताँबा, 1 बाल्टी स्टील, 1 कलश पीली धातु, 2 थाली पीली धातु, एक सब्बल लोहा।

अभियुक्तों गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नरौरा पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पुलिस टीम-

- 1- श्री अजीत सिंह थाना प्रभारी नरौरा
- 2- उ०नि०रोहिताश सक्सेना, का0सोनू सिंह, का0 मोहित, का० रजनेश, का० विधिन कुमार, का0संजय सिंह।



मीडिया सेल बुलंदशहर